



indus
TOWERS

July 31, 2022

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block – G, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400051

Ref: Indus Towers Limited (534816/ INDUSTOWER)

Sub: Publication of information regarding 16th Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held on Tuesday, August 23, 2022 through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 and other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), we hereby enclose the copies of newspaper advertisement published on July 30, 2022 in the following newspapers with respect to the information regarding 16th AGM of the Company scheduled to be held on Tuesday, August 23, 2022 at 03:30 p.m. (IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means:

1. Mint in English; and
2. Hindustan in Hindi

The above information is also available on the website of the Company at www.industowers.com.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Indus Towers Limited
(formerly Bharti Infratel Limited)

Samridhi Rodhe
Company Secretary



Encl: As above

Indus Towers Limited
(formerly Bharti Infratel Limited)



Fintech Jai Kisan raises \$50 million in Series B

Joseph Rai
joseph.raii@livemint.com
NEW DELHI

Rural fintech startup Jai Kisan on Friday said it has raised \$50 million (₹398.5 crore) in a mix of equity and debt in the first close of its ongoing Series B funding round.

A person close to the deal said the capital was raised at a valuation of \$200-240 million. The Mumbai-based startup is expected to raise additional \$30-50 million as part of the round in a mix of equity and debt, the person cited above said requesting anonymity.

The fresh capital was raised from new investors, GMO Venture Partners, Yara Growth Ventures and DG Daiwa Ventures, and existing investors such as Blume Ventures, Arkam Ventures, Mirae Asset and Snow Leopard Ventures, said Jai Kisan in a statement.

The debt funding was provided by Northern Arc, Alteria and MAS Financial, it added.

Jai Kisan, run by Greenizon Agritech consultancy, will use the money to expand its product suite and strengthen its data science and engineering capabilities. A portion of the capital raised will also be used to add talent, it added.

Prior to this round, Jai Kisan raised \$30 million in debt and equity in a Series A round led by Mirae Asset in May last year.

Founded in 2017 by Arjun Ahluwalia and Adriel Maniego, Jai Kisan is building a full-stack financial services platform for rural individuals and businesses. Its Bharat Khata app helps rural businesses digitize transactions and capture insights into the financial needs of customers.

'E-commerce penetration grew fivefold during covid'

Penetration of FMCG in e-commerce rose from 10% in FY21 to 15.6% in 2021-22

Suneera Tandon
suneera.t@htlive.com
NEW DELHI

The covid pandemic pushed sales of more fast-moving consumer goods online, with an estimated 10.7 million households buying such products between April 2020 and March 2022, data from Kantar Worldpanel showed.

However, the frequency of purchase, as well as the number of categories purchased, varied across consumer segments.

"The pandemic has propelled FMCG's footprint on e-com platform. E-commerce penetration soared to 5 times of pre-covid level. Not only recruitment but even on retention front, e-commerce climbed up," the company that tracks household consumption said.

In fact, among those surveyed, 31% of people said they shopped online in the last year. Among these, 28% bought groceries, including fresh vegetables, fruits, poultry, grains and pulses, online.

Grocery is among the top three segments bought online. Kantar surveyed socioeconomic A and B consumers for this data.

The penetration of FMCG as a category in e-commerce stood at 15.6% for the 12 months ended April 2022, up from 10% a year earlier.

In fact, this figure was 3.6% during the 12 months ended April 2020. The data shows a significant uptick in the adoption of the category online.

The pandemic prompted new shoppers to buy goods online as mobility remained restricted and stores worked under restricted hours.

As a result, new consumers emerged online, and existing shoppers experimented with buying more categories and shopping on more online platforms.



Pandemic prompted new shoppers to buy goods online as mobility remained restricted.

ISTOCKPHOTO

"Currently, fore-commerce, the base is very small, but definitely the growth will sustain. We're talking about a large country of ours where we only have a small number of e-commerce buyers. So, from that point of view, it is poised for growth for quite some time," said K. Ramakrishnan, managing director,

entrants. During the 24 months ended March 2022, evolved shoppers spent an average of ₹5,620 on buying fast-moving consumer goods online; in contrast, entrants spent ₹1,164.

Evolved e-commerce buyers, though they were only 13% of total households

mercer consumers are affluent shoppers from the top metros.

Shoppers of daily items tend to buy bigger packs through e-commerce, delaying their purchase cycle. They also tend to experiment with variants. This is why niche segments and categories, for instance, have better traction online.

"Personal hygiene categories and some staple food categories are top-most e-commerce recruitment categories. However, as e-commerce buyers evolve, they expand their category repertoire bought from e-commerce," the report said.

When it comes to preference of platforms, evolved shoppers prefer grocery specialist platforms such as Big Basket and Grofers (now called Blinkit). However, entrants are inclined towards trusted e-commerce platforms such as Amazon and Flipkart and discount-driven platforms such as Jio Mart and Dmart.

THE BOOM BOON

31% of people said they shopped online in the last year, out of these 28% bought groceries

SHOPPERS spent an average of ₹5,620 on buying fast-moving consumer goods online

SHOPPERS tend to buy bigger packs on e-commerce platforms, delaying the purchase cycle

EVOLVED shoppers opt for grocery specialists, entrants prefer discount-driven platforms

South Asia, Worldpanel Division. Kantar classified shoppers as evolved e-commerce shoppers and those who are entrants.

In fact, among evolved shoppers, e-commerce contributes to 17% of FMCG consumption versus 3% among

who shopped online for FMCG goods between April 2020 to March 2022, contributed to 59% of spending on such goods. Evolved shoppers also tend to buy a greater variety of categories at roughly 10, while entrants buy 2.7.

Expectedly, the most evolved e-com-

Small budget films key to growth of exhibition business

Latajha
lata.j@htlive.com

Despite the failure of *Jayeshbhai Jordaar*, *Anek*, *Attack and Shubash Mithu*, made at modest budgets, a number of mid-sized films are looking to cash in on the post-covid demand, as smaller films are critical for both actors as well as the exhibition sector.

However, ever since covid-19 restrictions were eased, the audiences have been flocking to theatres only for large spectacles, said trade experts.

The content pipeline must keep flowing for the theatres to make up for the losses during covid and to grow. Now the focus is on mystery thriller *Ek Villain Returns* releasing this weekend and Taapsee Pannu's *Do Baaara* scheduled for mid-August, they added.

Actors Fahadh Faasil, Tovino Thomas and Rajkumar Rao who witnessed reasonable success with the films released directly on the streaming plat-

forms during covid, and even garnering critical acclaim, are also looking to release their upcoming films in theatres. Faasil's latest film *Malayankunju* was released in cinemas last week while Rao's *Heeth* *The First Case* hit the cinemas the week before. "A lot of actors and filmmakers have realised box office is critical for the film to generate enough chatter among audiences. You can always recover investments through an OTT release, but the audience validation beyond social media, which is a small world anyway, is important," Girish Johar, film producer, and a



Content pipeline must keep flowing for the theatres. REUTERS

trade and exhibition expert, said. Theatrical releases are important to actors even if the film doesn't fare well at the box office, they win audience's love and appreciation while response to web releases is not as easy to gauge, Johar added.

Independent trade analyst Sreedhar Pillai said although cinemas are not happy about anything other than hardcore commercial entertainers at the moment, with some even considering it a waste of time, all actors, especially in the south,

are aware that stardom can only be sustained through theatrical releases. "Too many direct OTT releases can also bring theatrical standing down," Pillai added.

In March, Tamil star Suriya, whose films like *Soorarai Pottru* and *Jai Bhim* premiered on OTT and appeared on Netflix original *Naayana*, opted for a theatrical release of his medium-budget action thriller *Etharkkum Thunindhavan*. Even after delivering a hit like *Minna Murali* on Netflix, Malayalam star Thomas, too, decided to release *Naaradan* and *Vaashi* in cinemas.

Filmmakers have realized that box office is critical for a film to generate enough interest among audiences

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, किसान भवन लालकोठी वृत्त-जयपुर
दिनांक- 29.07.2022
विड आमन्त्रण सूचना संख्या 09/2022-23
विभिन्न निर्माण कार्य महाविद्यालय उच्चतर शिक्षा भवन, बालिका छात्रावास (अल्पसंख्यक विभाग) बीएनए, कार्यालय भवन उपग्रह विमान भवन, किसान फार्म सहकारी केंद्र (1), 02, राष्ट्रीय बोर्डिंग सेना की छात्रा, विद्यार्थी भवन, केंद्र (03/2021-22) भारतीय वायुसेना (शिव कर्म) कक्षा-1, जयपुर (भारत) पर नए विद्यार्थी उपसंख्यक मोबाइल-संख्या 409811 व प्रेम नगर (विद्यार्थी नगर) पोस्टी रु. 10.74 लाख से 409811 लाख, कुल राशि 1425.62 लाख के 09 कार्य की ऑन-लाईन विड ई-प्रोक्लमेट (www.eproc.rajasthan.gov.in) के माध्यम से उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत बिडर्स से आमंत्रित की जाती है। विड से संबंधित विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाइट www.agriculture.rajasthan.gov.in/raamb 1 पर www.spp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। किसान भवन UBN-AGM223WS080451 से AGM223WS080459 है।
अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त-जयपुर
संबंधित संख्या/री/22/5734

INDUS TOWERS LIMITED
(FORMERLY BHARTI INFRASTRUCTURE LIMITED)
CIN: L64201HR2006PLC073821
Regd. Office: Building No. 10, Tower A, 4th Floor, DLF Cyber City, Gurugram-122002, Haryana
Tel: +91-124-4296766, Fax: +91-124-4289333
Email id: compliance.officer@industowers.com Website: www.industowers.com

INFORMATION REGARDING 16th ANNUAL GENERAL MEETING OF INDUS TOWERS LIMITED

In compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013, rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 and other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), the 16th Annual General Meeting ('AGM') of Indus Towers Limited (formerly Bharti Infratel Limited) ('Company') will be held through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') on Tuesday, August 23, 2022 at 3:30 pm (IST) to transact the businesses as are set forth in the Notice of AGM ('Notice').

In accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice and Integrated Report & Annual Accounts 2021-2022 ("Integrated Report") will be sent through electronic mode to those members whose e-mail ids are registered with the Company/ Depository Participants (DPs) and a hard copy of the full Integrated Report will be sent to those shareholders who will request for the same. The Notice and Integrated Report will also be available on the website of the Company at <https://www.industowers.com/>, on the website of KFin Technologies Limited, Company's RTA, at <https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx> and on the websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Further, members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining and manner of participation in the AGM will be provided in the Notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail addresses with the Company are requested to register the same by following the procedure specified in the Notice, i.e. either by registering through the link: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> or by writing to KFin Technologies Limited, Company's RTA, at einward.ris@kfintech.com along with the following documents:

- scanned copy of signed request letter mentioning their name and address;
- scanned copy of the share certificate (front and back);
- self-attested scanned copy of PAN card; and
- self-attested scanned copy of any document (viz. Electricity Bill, Driving License, Passport) in support of their address.

Members holding shares in dematerialized form are requested to register/ update their e-mail addresses with their relevant DPs. For the limited purpose of receiving the Notice and Integrated Report for the financial year 2021-2022, they may also temporarily register their e-mail addresses by following the procedure specified in the Notice i.e. by registering through the link: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> or by sending an email request to einward.ris@kfintech.com.

The Company will provide remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice. Additionally, the Company will also provide the facility of voting through e-voting system during the AGM. The detailed procedure for casting votes through remote e-voting/ e-voting at the AGM, including the manner in which members holding shares in physical form or who have not registered their email addresses can cast their vote through remote e-voting/ e-voting at the AGM, shall be provided in the Notice.

This advertisement is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars.

For Indus Towers Limited
(formerly Bharti Infratel Limited)
Sd/-
Samridhi Rodhe
Company Secretary

Place: Gurugram
Date: July 29, 2022

Extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30 June 2022 (₹ Crore)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)
1	Total income from operations	38349.79	26038.51	116137.33	43177.14	29888.02	132669.28
2	Net profit before tax (before exceptional items)	5090.79	3538.76	19165.75	5427.88	3901.51	20520.91
3	Net profit before tax (after exceptional items)	5090.79	3538.76	19165.75	5427.88	3901.51	20520.91
4	Profit after tax	3676.43	3145.63	16111.42	3977.77	3443.72	16960.29
5	Profit after tax attributable to owners of the parent company				3936.82	3411.56	16675.90
6	Profit after tax attributable to non-controlling interest				40.95	32.16	284.39
7	Total comprehensive income after tax	3676.43	3152.74	16023.79	3946.12	3451.58	16873.04
8	Paid-up equity share capital (Face value of share ₹10/- each)	9696.67	9696.67	9696.67	9696.67	9696.67	9696.67
9	Other equity excluding revaluation reserve as per balance sheet	122050.59	112431.05	118354.40	129607.37	119454.75	125677.07
10	Net worth*	131073.17	121427.95	127391.38	138602.37	128400.81	134656.61
11	Paid up debt capital	175261.35	174140.86	170647.08	215575.64	210427.27	209555.26
12	Debtenture redemption reserve	5632.18	6050.68	5643.18	6422.84	6789.85	6421.72
13	Earnings per share (of ₹10/- each) - (not annualised) (including net movement in regulatory deferral account balances): Basic and Diluted (in ₹)	3.79	3.24	16.62	4.06	3.52	17.20
14	Earnings per share (of ₹10/- each) - (not annualised) (excluding net movement in regulatory deferral account balances): Basic and Diluted (in ₹)	3.88	2.43	15.26	3.98	2.67	15.66

* Excluding Fly ash utilization reserve and items of Other comprehensive income.

Notes:
1 The above is an extract of the detailed formats of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full formats of the financial results of the Company are available on the investor section of our website <https://www.ntpc.co.in> and under Corporate Section of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at <https://www.bseindia.com> & <https://www.nseindia.com>
2 Previous periods figures have been reclassified wherever considered necessary.

Place : New Delhi
Date : 29 July 2022

For and on behalf of Board of Directors of NTPC Limited
Sd/-
(Jaikumar Srivivasan)
Director (Finance)
DIN:01220828

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF SUPERVISION
www.rbi.org.in

Cancellation of Certificate of Registration issued to Non-Banking Financial Companies

The Reserve Bank of India has since cancelled Certificates of Registration issued to a number of Non-Banking Financial Companies under sub section of section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (RBI Act) and therefore these companies are not authorised to carry on the business of a non-banking financial institution as defined in clause (a) of section 45-I of the RBI Act, after cancellation of their certificate of registration.

The list containing the names of non-banking financial companies, whose Certificate of Registration have been cancelled, is published on the official website of the Reserve Bank, https://rbi.org.in/Scripts/BS_NBFCList.aspx and the same is being updated regularly.

The members of the public may visit the official website of the Reserve Bank of India for information on companies whose certificate of registration have been cancelled by the Reserve Bank.

(Shiv Kumar Yadav)
General Manager
Reserve Bank of India

New Delhi
July 27, 2022

As nutritious as soup. And just as easy to digest.

Easynomics
A Weekly newsletter by Vivek Kaul

- Covers big economic issues
- Focuses on impact on daily lives
- Complimentary for limited time

To subscribe, scan this code or login:
livemint.com/newsletters

NTPC Limited

(A Govt. of India Enterprise)
Leading the Power Sector

Follow us on : [f /ntpc1](https://www.facebook.com/ntpc1) [t /ntplimited](https://www.twitter.com/ntplimited) [y /ntpltd1](https://www.youtube.com/ntpltd1) [in /company/ntpc](https://www.linkedin.com/company/ntpc) [ig /ntplimited](https://www.instagram.com/ntplimited)

Regd. Office: NTPC Bhawan, Core-7, SCOPE Complex, 7 Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110003 CIN: L40101DL1975GOI007966, E-mail: ntpc@ntpc.co.in, Website: www.ntpc.co.in

